



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2004 शनिवार/कार्तिक 16—कार्तिक 22, 1926  
No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2004 SATURDAY/KARTIKA 16—KARTIKA 22, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2004

सा. का. नि. 384.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना [भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 3 जनवरी, 2004 को सा.का.नि. संख्या 2 के रूप में प्रकाशित] में नियमों के संशोधन के वर्ष को राजपत्र में इसके प्रकाशन के वर्ष के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पैरा 1 (1) में निर्दिष्ट वर्ष को 2003 के स्थान पर 2004 पढ़ा जाए।

[फा. सं. 11012/4/2003—स्था. (क)]

ए. प्रभाकरन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th November, 2004

G.S.R. 384.—In the notification of Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) dated 23rd December, 2003 [G.S.R. 2 dated 3rd January, 2004 published in

(the Gazette of India in Part-II, Section 3, sub-section (i)) the year indicated in para 1 (1) may be read as 2004 instead of 2003 (to tally the year of the Amendment Rules with the year of its publication in the Gazette.

[F. No. 11012/4/2003-Estt. (A)]

A. PRABHAKARAN, Under Secy.

### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2004

**स.का.नि. 385.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग समूह 'ग' (माइक्रोफिल्मिंग) पद भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग में, ज्येष्ठ कैमरामैन (माइक्रोफिल्मिंग) और कैमरामैन (माइक्रोफिल्मिंग) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग समूह 'ग' (माइक्रोफिल्मिंग) पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संयंत्र में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. ज्येष्ठ कैमरामैन (माइक्रोफिल्मिंग)	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसूचित	4500-125-7000 रुपये	अचयन

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

**प्रोन्नति :**

ऐसा कैमरामैन (माइक्रोफिल्मिंग) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(ii) जिन्होंने, मूल काडर/विभाग में 4000-100-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है और माइक्रोफिल्मिंग में पांच वर्ष का अनुभव हो।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह "ग" अनुसूचिवर्गीय) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता

- सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना), केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष
- केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी निदेशालय का निदेशक/उप-निदेशक —सदस्य
- अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य
- अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य

1	2	3	4	5
2. कैमरामैन (माइक्रोफिल्मिंग)	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10
नहीं	28 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण 1.</b> — (केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2 :</b> अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आयु में शिथिलता संचयित रूप में शिथिलनीय है। <b>टिप्पण 3 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) माइक्रो फोटोग्राफी या प्रोसेस कैमरा में तीन वर्ष का अनुभव या (ख) फोटोग्राफी में आई टी आई प्रमाणपत्र और फोटोग्राफी या प्रोसेस कैमरा में एक वर्ष का अनुभव <b>वांछनीय :</b> मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह "ग" अनुसचिवीय) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता
1. सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना), केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी निदेशालय का निदेशक/उप-निदेशक	—सदस्य
3. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	—सदस्य
4. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य

[ सं० 28/2004-फा० सं० 35/15/99-स्था०-I ]

अशोक झा, अवर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**

New Delhi, the 4th November, 2004

**G.S.R. 385.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Commission, Group 'C' (Microfilming) posts Recruitment Rules 1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Cameraman (Microfilming) and Cameraman (Microfilming) in the Central Water Commission, under the Ministry of Water Resources, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Water Commission Group 'C' (Microfilming) posts Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Senior Cameraman (Microfilming)	*1 (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
By promotion failing which by Deputation		<p><b>Promotion :</b> Cameraman (Microfilming) with 5 years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with 5 years regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University and 5 years experience in Microfilming.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)</p>			

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13	14
<b>Departmental Promotion Committee (Group 'C' Non-ministerial) consisting of :</b>	Not applicable.
1. Secretary/Director (Administration)/Director (Establishment), Central Water Commission—Chairman	
2. Director/Deputy Director of any Technical Directorate, Central Water Commission—Member	
3. Under Secretary, Central Electricity Authority—Member	
4. Under Secretary, Central Water Commission—Member	

1	2	3	4	5	6
2. Cameraman (Microfilming)	*1 (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	No

7	8	9	10
Upto 28 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years). <b>Note 1 :</b> Relaxable for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note 2 :</b> Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Schedule Castes/the Schedule Tribes/Other Backward Classes. <b>Note 3 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Leh and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). <b>In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial</b>	<b>Essential :</b> (a)(i) Matriculation or equivalent from a recognised University or Board and (ii) Three years experience in micro-photography or process camera. <b>OR</b> (b) ITI certificate in photography with one year experience in photography or process camera. <b>Desirable :</b> Diploma in Printing technology.	Not applicable	2 years

7

date for determining the age limit, in each case be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

II	12
By direct recruitment	Not applicable
13	14
<b>Departmental Promotion Committee (Group 'C' Non-ministerial) consisting of :</b>	Not applicable.
1. Secretary/Director (Administration)/Director (Establishment). Central Water Commission—Chairman	
2. Director/Deputy Director of any Technical Directorate, Central Water Commission—Member	
3. Under Secretary, Central Electricity Authority—Member	
4. Under Secretary, Central Water Commission—Member	
[No. 28/2004 File No. 35/15/99-Estt. I]	
ASHOK JHA, Under Secy.	

### कृषि मंत्रालय

( पशुपालन एवं डेयरी विभाग )

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2004

**सा.का.नि. 386.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना और इसके आधार (वर्ग I और II पद) भर्ती नियम, 1977, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, में ज्येष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, ज्येष्ठ लेखाकार भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।



5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
ज्येष्ठ लेखाकार	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसन्धिवीय	5500-175-9000 रुपए	चयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सेवा में जोड़े गये वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने वाले फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा			
11	12			
प्रोन्नति	प्रोन्नति : 5000-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसा लेखाकार जिसने उस श्रेणी में, तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित होंगे :—

1. महानिदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई —अध्यक्ष
2. निदेशक (मात्स्यिकी)/उप सचिव/अवर सचिव, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग —सदस्य
3. उप महानिदेशक (मात्स्यिकी)/क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई —सदस्य
4. उप महानिदेशक (इंजीनियरी), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई —सदस्य
5. भार साधक अधिकारी, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई —सदस्य

[फाइल संख्या 2-11/2002-मात्स्यिकी (प्रशासन)]

आर.के. मेहता, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 27th October, 2004

**G.S.R. 386.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Exploratory Fisheries Project and its bases (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the post of Senior Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accountant in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India, Senior Accountant Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Accountant	*1(one)(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		No	Two years
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Promotion		<b>Promotion :</b> Accountant in the scale of Rs. 5000—8000 with three years' regular service in the grade.  <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13	14
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—</b>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
1. Director General Fishery Survey of India, Mumbai —Chairman	
2. Director (Fishery)/Deputy Secretary/Under Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying —Member.	
3. Dy. Director General (Fishery)/Zonal Director, Fishery Survey of India, Mumbai —Member.	
4. Dy. Director General (Engineering), Fishery Survey of India, Mumbai —Member.	
5. Officer-in-charge, Central Marine Fisheries Research Institute, Mumbai Research Centre, Mumbai —Member.	

[F. No. 2-11/2002-Fisheries (Admin.)]

R.K. MEHTA, Under Secy.

( कृषि और सहकारिता विभाग )

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2004

सा.का.नि. 387.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सहकारिता विभाग, तकनीकी अधिकारी (वनस्पति संरक्षण) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित भर्ती नियम, 1991 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग, तकनीकी अधिकारी (वनस्पति संरक्षण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और सहकारिता विभाग, तकनीकी अधिकारी (वनस्पति संरक्षण) भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
तकनीकी अधिकारी (वनस्पति संरक्षण)	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा आमेजन नहीं की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/आमेजन किया जाएगा

11	12
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)	<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) :—</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्धसरकारी/कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन आने वाले ऐसे अधिकारी :—</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6,500—10,500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ;</p> <p><b>आवश्यक :</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या मृत्र कृमि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या कृषि (कीट विज्ञान या मृत्र कृमि विज्ञान में विशेषज्ञता सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री या प्राणी विज्ञान (कीट विज्ञान या मृत्र कृमि विज्ञान में विशेषज्ञता सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) वनस्पति संरक्षण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या मृत्र कृमि या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य।</p> <p><b>टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से अधिक काले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 36 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
लागू नहीं होता	<p>उक्त पद पर प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति के लिए और इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[ स. सं. 12018/1/2004-ई. V ]

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531, तारीख 14 सितम्बर, 1991 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 3rd November, 2004

G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Agriculture and Co-operation, Technical Officer (Plant Protection). General Central Service Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Agriculture and Co-operation, Technical Officer (Plant Protection), Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Department of Agriculture and Co-operation, Technical Officer (Plant Protection), Recruitment Rules, 1991, the following Schedule shall be substituted, namely :—

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technical Officer (Plant Protection)	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In the case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Deputation (including short term contract)		<b>Deputation (including short-term contract) :</b> Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with at least three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Pay of Rs. 6,500—10,500 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : <b>Essential :</b> (i) M.Sc. degree in Entomology or Nematology or M.Sc. Degree in Agriculture (with specialization in Entomology or Nematology) or M.Sc. Degree in Zoology (with specialization in Entomology or Nematology) from a recognized university or equivalent. (ii) Three years' experience in Plant Protection work.			

**Desirable :** Doctorate Degree in Entomology or Nematology or Agriculture Entomology from a recognized University or equivalent.

**Note :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules.

[F. No. 12018/1//2004-E.V]

K.D. UPRETI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification number G.S.R. 531 dated 14th September, 1991.